



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 1978/फाल्गुन 11, 1899

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1978/PHALGUNA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 2 मार्च, 1978

का० आ० 143(अ) —केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अचल सम्पत्ति और व्यवसाय सेवाओं तथा कानूनी सेवाओं में रोजगारों को, सम्बन्धित सरकार द्वारा एक या अधिक ऐसी सलाहकार समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ, जो सरकार को इस बात की सलाह देगी कि किस सीमा तक ऐसे रोजगारों में महिलाओं को नियोजित किया जाये, विनिर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

I अचल सम्पत्ति और व्यवसाय सेवाएं

- 1 रिहायशी और गैर-रिहायशी भवनों जैसी अचल सम्पत्ति का क़य, विक्रय, उन्हें किराये पर देना और उनकी व्यवस्था करना, अचल सम्पत्ति का विकास करना तथा उसे उप-खण्डों में विभाजित करना, अचल सम्पत्ति के पट्टादाता, अचल सम्पत्ति एजेंट, ठेका या फीम के आधार पर अचल सम्पत्ति को किराये पर देने, खरीदने और बेचने, प्रबन्ध करने तथा मूल्यांकन करने में लगे आइवी और प्रबन्धक।

- 2 अचल सम्पत्ति के क़य और विक्रय एजेंट तथा आइवी।

- 3 नौलाम का व्यवसाय।

- 4 लेखा, लेखा परीक्षा तथा बहीखाता सेवाएं।

- 5 डेटा प्रोसेसिंग और टैरिफिंग सेवाएं।

- 6 इजीनियरी, वास्तु और तकनीकी सेवाएं।

- 7 विज्ञापन और प्रचार सेवाएं।

- 8 मशीनरी और उपकरण, किराये और पट्टे पर देने की सेवाएं।

- 9 समाचार एजेंसियों अर्थात् पी० टी० आई० यू० एन० आई० रायटर आदि।

- 10 व्यवसाय सेवाएं, मशीनरी और उपकरण, किराये और पट्टे पर देने को छोड़कर जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं और जिनमें सपेडना, पैकिंग करना और भराई शामिल है।

II कानूनी सेवाएं

- 11 कानूनी सेवाएं जैसे वे अधिवक्ताओं, बैरिस्टर्स, सालिसिटर्स, जूरीडर्स, मुकदमों और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं।

[सं० एस० 42013/4/77-डब्ल्यू० सी०]

MINISTRY OF LABOUR
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 1978

S.O. 143(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in Real Estate and Business Services and Legal

services, specified in the Schedule annexed hereto for, the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

SCHEDULE

I. Real Estate and Business Services :

1. Purchase, sale, letting and operating of real estate such as residential and non-residential buildings, developing and sub-dividing real estate into lots, lessors of real property, real estate agents, brokers and Managers engaged in renting, buying and selling, managing and appraising real estate on a contract or fee basis.

2. Purchase and sale agents and brokers of real estate.

3. Auctioneering.

4. Accounting, auditing and book-keeping services.

5. Data Processing and Tabulating services.

6. Engineering, architectural and technical services.

7. Advertising and Publicity services.

8. Machinery and equipment, rental and leasing.

9. News Agencies e.g., P.T.I., U.N.I., Reuter, etc.

10. Business services, except machinery and equipment rental and leasing not elsewhere classified including wrapping, packaging and filling.

II. Legal Services :

11. Legal Services, such as those rendered by advocate, barristers, solicitors, pleaders, mukhtars, etc.

[No. S 42013/4/77-WC]

क्रा० आ० 144(अ)—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 (1978 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 6 मार्च, 1978 की उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको इसके साथ संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट अचल सम्पत्ति और व्यवसाय सेवाओं तथा कानूनी सेवाओं में रोजगारों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

अनुसूची

I. अचल सम्पत्ति और व्यवसाय सेवाएँ :

1. रिहायशी और गैर-रिहायशी भवनों जैसी अचल सम्पत्ति का क्रय, विक्रय, उन्हें किराये पर देना और उनकी व्यवस्था करना, अचल सम्पत्ति का विक्रय करना तथा उसे उपखण्डों में विभाजित करना, अचल सम्पत्ति के पट्टावाता, अचल सम्पत्ति एजेंट, ठेका या फीस के आधार पर अचल सम्पत्ति को किराये पर देने, खरीदने और बेचने, प्रबन्ध करने तथा मूल्यांकन करने में लगे आकृति और प्रबन्धक।

2. अचल सम्पत्ति के क्रय और विक्रय एजेंट तथा आकृति।

3. नीलम का व्यवसाय।

4. लेखा, लेखा परीक्षा तथा बहीखाता सेवाएँ।

5. डेटा प्रोसेसिंग और टेबुलेशन सेवाएँ।

6. इंजीनियरी, वस्तु और तकनीकी सेवाएँ।

7. विज्ञापन और प्रचार सेवाएँ।

8. मशीनरी और उपकरण, किराये और पट्टे पर देना।

9. समाचार एजेंसियों अर्थात् पी० टी० आई०, यू० एन० आई० रायटर आदि।

10. व्यवसाय सेवाएँ, मशीनरी और उपकरण, किराये और पट्टे पर देने को छोड़कर जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं, और जिनमें लपेटना, पैकिंग करना और भराई शामिल है।

II. कानूनी सेवाएँ :

11 कानूनी सेवाएँ, जैसे वे जो अधिवक्ताओं, बैरिस्टरों, सोलिसिटर्स, प्लीडर्स, मुक़्तदारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं।

[संख्या एम० 42013/4/77-इक्यू० सी०]

टी० एस० शंकरन, अवर सचिव

S.O. 144(E).—In exercise of the Power conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the 6th March, 1978 as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in Real Estate and Business Services and legal services specified in the Schedule annexure hereto

SCHEDULE

I. Real Estate and Business Services :

1. Purchase, sale, letting and operating of real estate such as residential and non-residential buildings, developing and sub-dividing real estate into lots, lessors of real property, real estate agents, brokers and Managers engaged in renting, buying and selling, managing and appraising real estate on a contract or fee basis.

2. Purchase and sale agents and brokers of real estate.

3. Auctioneering.

4. Accounting, auditing and book-keeping services.

5. Data Processing and Tabulating Services.

6. Engineering, architectural and technical services.

7. Advertising and Publicity Services.

8. Machinery and equipment, rental and leasing.

9. News Agencies, e.g., P.T.I., U.N.I., Reuter, etc.

10. Business services, except machinery and equipment rental and leasing not elsewhere classified including wrapping, packaging and filling.

II. Legal Services :

11. Legal Services, such as those rendered by advocates, barristers, solicitors, pleaders, mukhtars and such others.

[No. S-42013/4/77-WC]

T. S. SANKARAN, Additional Secy.